



Sub: Newspaper advertisement pert and 9M FY22 ended December	aining to Unaudited Financial Results for Q3
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI
Thru: BSE Listing Centre	Thru: NEAPS
MUMBAI - 400 001	MUMBAI - 400 051
Dalal Street, Fort,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Rotunda Building, P.J. Tower,	Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor,
Department of Corporate Services,	Listing Department
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
REF:TEIL:SE:	Date: 3 <sup>rd</sup> February, 2022

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, we enclose copies of the newspapers advertisement pertaining to the financial results of the Company for the Q3 and 9M FY22 ended December 31, 2021 published in the Business Standard (English & Hindi) on 3<sup>rd</sup> February, 2022.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Ltd.

GEETA BHALLA
Group Vice President &
Company Secretary
M.No.A9475

Encl: As above

# Weak demand-led rural stress to continue for FMCG firms

Mumbai, 2 February

Fast-moving consumer goods companies expect demand to remain under pressure as the government did not announce any direct initiatives in the Budget for 2022-23 to ease the pain of weak demand amid persisting cost pressures.

While the government announced initiatives like PM Gati Shakti, which will increase employment, it will take a while for the money to reach the hands of the consumer, according to consumer companies Also the MNREGA allocation did panies expect it to get revised during the consumption, which will revive demand,

"One can not expect rural demand to increase from March as there was no immediate relief announced by the government to increase money in the hands of the consumer, especially in rural areas," Angshu Mallick, the managing director and chief executive officer of Adani Wilmar, told Business Standard.

Mallick, however, added that rural demand will eventually increase as the government's emphasis on infrastructure will lead to employment and higher income. Factors such as good crops of wheat, mustard and chana will generate not come on expected lines but com- better income for farmers and improve



Mayank Shah, the category head at Parle Products, said, "The bigger evil is inflation compared to rural demand". terms of reviving demand. High inputs costs have led to price hikes and impacted demand. He said that MNREGA allocation could have been higher, and expects it to get revised going forward.

'Putting money in the hands of consumers really helps... The industry expected direct benefit transfer either by tax cut, or by increasing slabs of the tax brackets or by probably increasing the standard deduction limit. Not much has been done there," Shah said.

"In terms of rural demand, when

you're talking about putting money into the hands of rural consumers by increasing MSP (minimum support prices), it is also going to have an impact on inflation."

Rural demand has been under pressure for the last two quarters. While value growth in rural areas is positive, volume

growth is negative.

Venkatesh Vijayaraghavan, the chief executive officer, CavinKare, said, "the government's view on investment in capex will cause the economy to improve in the long term, which augurs well as overall demand will rise". However, none of the Budget announcements will have an impact on addressing rural demand, which he expects will revive only by March-end.

### ONGC, IOC, others to spend ₹1.1 trillion as capex in FY23

NEW DELHI, 2 February

State-owned oil firms will invest over ₹1.11 trillion in the next fiscal year as they supplement the government's massive spending programme to spur economic growth.

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian an outlay of ₹28,549 crore for Oil Corporation (IOC), GAIL (India), Bharat Petroleum Corporation (BPCL),

Petroleum Hindustan Corporation (HPCL) and Oil chemical plants, up from India (OIL) will together make ₹7,160 crore revised expendia 7.4 per cent higher capital ture in FY22.

expenditure (capex) in FY23. The capex spending of ₹1.11 trillion in FY23 compares with a revised estimate of ₹1.04 tril-

lion for FY22. ONGC has planned a capex of ₹29,950 crore in FY23, marginally lower than the revised estimates expenditure of ₹30,500 crore in FY22. IOC has the next year, almost the same as FY22. GAIL will invest ₹7,500 crore in the expansion of pipeline grid and petroHead Office, Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075,

NOTICE FOR REQUEST FOR PROPOSAL FOR APPOINTMENT &

PUNJAB NATIONAL BANK invites application from Real Estate Consultants (Central/State Govt./PSU & reputed companies for empanelment for rendering their services for selling of Bank's owned properties (Land & Building) on Pan India Basis.

For detailed information, please visit our websites https://www.pnbindia.in/ tender.aspx; https://etender.pnbnet.in

03.02.2022

**Authorized Officer** 

### APPOINTMENTS

**Banks Board Bureau** 

invites application for the position of

**Managing Director** 

**National Bank for Financing Infrastructure and Development** 

The Institution: The National Bank for Financing Infrastructure and Development was established in 2021 as the principal development financial institution and developme oank for infrastructure financing in India.

The Managing Director shall hold office for a term not exceeding five years and shall be eligible for re-appointment subject to the overall term not exceeding ten years; provided that he/she shall not hold office after attaining the age of sixty-five years. The MD is expected to define and shape the Vision, Mission and Values of NaBFID

(A) The candidate should be in the age group of 50 to 60 years as on January 31, 2022 vith education qualification of Post-graduate or equivalent or professional qualification o

(B) should have a minimum experience of 25 years in mainstream banking or financia lending business such as SCBs, AIFIs, and NBFCs of which at least three years of current or prior experience should be at the Board Level position or MD/CEO level as of 31st January 2022, including part or whole of this experience in an institution with a balance sheet of more than Rs.3 lakh crore, as of 31.03.2021. The incumbency of Board level position or MD/CEO position should not be older than three years prior to 31st Januar

For details of the other eligibility terms and conditions, please see the advertisement or https://banksboardbureau.org.in/ under the "Vacancies" tab or or //www.sidbi.in/en

How to apply: Interested candidates can apply online through the link available of nttps://banksboardbureau.org.in/under the "vacancies" tab.

Last date of application: 5:00 pm on 07-Mar-2022 Note: All further announcements/details including corrigendum, if any, about this process will be published/provided on our official website http://banksboardbureau.org.in.

## General Services Administration Division.

Ph: 011-28073005, 28072005, 28044405, E-mail: property@pnb.co.in

**EMPANELMENT OF CONSULTANT FOR SALE OF BANK OWNED PROPERTIES** 

Eligible Central/State Govt./PSU/Pvt. Companies may submit their applications along with required documents to "The Dy. General Manager, Punjab National Bank, General Services Administration Division, Head Office, Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075" on or before 24.02.2022 by 03:00 P.M.

Any corrigendum/ Extension of date/ clarification in respect of the above said notice shall be released only at our web site https://www.pnbindia.in which may be visited regularly by the intending bidders.

# Looking for top **Recruitment Consulting Agency** to provide top executives!

Applications are invited from recruitment consulting companies for facilitating recruitment in mid, senior and executive management

For details, visit

https://www.eximbankindia.in/tenders-and-notices# Last date for application is 21.02.2022



www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in | Follow us on (f) 💟 📭

# ENGINEERING & INDUSTRIES LTD.

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021

(₹ in lakhs, except per share c						
	3 Month	s ended	9 Month	Year ended		
Particulars	31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Mar-2021 (Audited)	
Total Income from operations	123544	112308	350192	351528	470335	
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	18499	14576	43034	32601	45910	
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	18499	14576	43034	32601	45977	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	13012	9466	31489	20959	29461	
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	13094	9442	32013	21011	29400	
Equity share capital	2418	2418	2418	2418	2418	
Other equity					153149	
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)						
(a) Basic (in ₹)	5.39	3.89	13.03	8.50	12.01	
(b) Basic (in ₹)	5.39	3.89	13.03	8.50	12.01	
Notes:						

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under

(₹ in lakhs)

3 Month	s ended	9 Month	Year ended		
31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Mar-2021 (Audited)	
122994	112180	349006	350897	469321	
18144	14059	38627	31442	43187	
12711	9123	28042	20418	27331	
12789	9123	28132	20418	27302	
	31-Dec-2021 (Unaudited) 122994 18144 12711	(Unaudited)         (Unaudited)           122994         112180           18144         14059           12711         9123	31-Dec-2021 (Unaudited)         31-Dec-2020 (Unaudited)         31-Dec-2021 (Unaudited)           122994         112180         349006           18144         14059         38627           12711         9123         28042	31-Dec-2021 (Unaudited)         31-Dec-2020 (Unaudited)         31-Dec-2021 (Unaudited)         31-Dec-2020 (Unaudited)           122994         112180         349006         350897           18144         14059         38627         31442           12711         9123         28042         20418	

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com)

For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Place: Noida Date: February 2, 2022

Dhruv M. Sawhney Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305 Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301 www.trivenigroup.com | CIN: L15421UP1932PLC022174

"In this Policy, the Investment Risk in the Investment portfolio is borne by the Policyholder" Sabse Pehle

## Save Once... and Realise Your Life Goals



Plan No: 849 UIN:512L317V01

A Unit Linked, Non Participating, Single Premium.

Individual Life Insurance Plan

Call Centre Services (022) 6827 6827

SMS YOUR CITY NAME to 56767474

or visit www.licindia.in Follow us: 1 You 100 V LIC India Forever

#### Freedom to choose:

- Saving Amount: You can invest a lumpsum as small as Rs.1 lakh or any bigger amount for larger life goals
- 4 Fund Options You can choose from 4 fund options as - Bond, Secured, Balanced and
- You can move your money between fund options freely four times in a year to maximize returns
- Withdraw when you need You can partially withdraw after 5<sup>th</sup> year onwards\*
- Life Cover Options Choose Life cover 1.25 times or 10 times of premium paid

#### **Policy Benefits:**

- Guaranteed Additions: Enjoy guaranteed additions in
- addition to unit fund value\* Policy Maturity: Unit Fund

#### Check your eligibility:

- Age at entry Minimum Age: 90 days Maximum Age: 35 Years / 70 Years (As
- per Life Cover Chosen) Maturity Age: Minimum Age: 18 years Maximum Age: 50Years/85Years
- Policy Term: 10 25 years



Growth. Motivation. Better Life


### SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74999DL1987PLC029553

Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

E-mail: investors@sandhar.in Website: www.sandhargroup.com

**Tel:** 0124 - 4518900



\*Consolidated (₹ in crores, except EPS) | PAT inclusive of Other Comprehensive Income

#### EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021

	(₹ in lakhs, except per equity share data)									
			Consolidated				Standalone			
SI.	Particulars	Quarter ended		Nine months Year ended ended		Quarter ended		Nine months ended	Year ended	
No.		31 December 2021	31 December 2020	31 December 2021	31 March 2021	31 December 2021	31 December 2020	31 December 2021	31 March 2021	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Revenue from Operations	61,171.22	59,307.54	164,012.40	186,356.51	51,387.18	50,986.80	136,790.73	158,530.80	
2	Net Profit for the period (before Tax and share of loss in joint ventures)	2,467.58	4,362.07	6,336.56	8,921.46	2,432.77	3,904.55	5,734.48	8,547.72	
3	Net Profit for the period (before Tax and after share of loss in joint ventures)	2,158.80	4,046.35	5,299.25	7,801.53	2,432.77	3,904.55	5,734.48	8,547.72	
4	Net Profit for the period (after Tax and after share of loss in joint ventures)	1,311.57	2,918.36	3,644.14	5,783.36	1,645.58	2,896.67	4,113.86	6,523.20	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	2,155.71	2,859.30	4,368.22	5,408.83	1,610.59	2,735.43	3,966.92	6,123.00	
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	
7	Total Reserves	-	-	-	74,418.43	-	-	-	74,654.97	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs 10/- per share) (not annualised for quarter/ nine months)									
	1. Basic:	2.17	4.85	6.05	9.61	2.73	4.81	6.83	10.84	
	2. Diluted:	2.17	4.85	6.05	9.61	2.73	4.81	6.83	10.84	

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine months ended 31 December 2021 of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine months ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com

> JAYANT DAVAR Co-Chairman and Managing Director

For Sandhar Technologies Limited

For more details on risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure carefully before concluding a si

Har Pal Aapke Saath




Place: Gurugram (Haryana)

Dated: 2 February 2022









शाखा : विश्वासनगर शाखा, नई दिल्ली

कब्जा सूचना

कब्जा सूचना

शाखाः विश्वासनगर शाखा, नई दिल्ली

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विश्वास नगर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज के सहित सूचना में वर्णित रु. 1540147.16 / — (रुपए पंद्रह लाख चालीस हजार एक सौ सैंतालीस व सोलह पैसे केवल) की राशि का भूगतान करने के लिए ऋणी देवेश कुमार (मालिक : मैसर्स परमानंद मेडिकोज) को बुलाने के लिए 03.02.2020 को मांग सूचनाएं जारी की थी।

ऋणी / गारंटर राशि का भुगतान करने में असफलें रहे, एतद्द्वारा ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **31 जनवरी 2022** को कब्जा ले लिया है । विशेष रूप से ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उपरोक्त अनुसार लागत व ब्याज के सहित उक्त खातों में रु. 1540147. 16/- (रुपए पंद्रह लाख चालीस हजार एक सौ सैंतालीस व सोलह पैसे केवल) की राशि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार का विषय होगा। अचल संपत्ति का विवरण

भूमि व बिल्डिंग— श्री देवेश कुमार से संबंधित (संपत्ति के स्वामी) एलआईजी फ्लैट नं. 306, दूसरी मंजिल छत अधिकारों के बिना, आस्था के रूप में ज्ञात बिल्डिंग में स्थित प्लॉट नं. 13 पर निर्मित, ब्लॉक बी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन ।।, गाजियाबाद, ज.प्र. में स्थित और सीमाएं पूर्व—बालकोनी व सर्विस लेन, पश्चिम : फ्लैट नं. 304 (दूसरी मंजिल), उत्तर : फ्लैट नं. 305(दूसरी मंजिल), दक्षिण-फ्लैट नं. 307(दूसरी मंजिल)

दिनांक : 31.01.2022 स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक वसली विभाग, मण्डल शस्त्रा केन्द्र उत्तरी दिल्ली गरूद्वारा रोड. करोल बाग. नई दिल्ली

दिनांक 02.02.2022 को इस समाचार पत्र में पढा जाऐ । ोष अन्य खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

फोन : 8171626615, ई—मेंल : cs8292@pnb.co.in

छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदा मैसर्स गढ़वाल वस्त्र भंडार, (क्र.सं. 2), की सम्पत्ति के मामले में ईएमडी रु. 2,53,500/- वं स्थान पर **संशोधित** ईएमडी **रु**. **2,54,000/-**

शुद्धिपत्र

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक



ऑफ इंडिया, विश्वास नगर शाखा के प्रभार का विषय होगा।

युनियन बैंक 🕼 Union Bank

तहत मांग सूचना(ओं) जारी की थी।

दिनांक : 01.02.2022 स्थान : दिल्ली

Corporatio

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के

अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3, 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विश्वास नगर के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति

की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज की सहमति दरों पर ब्याज सहित कुल में उक्त सचना में वर्णित **रूं. 11,10,295 /**—

**(रुपए ग्यारह लाख दस हजार दो सौ पिचानवे केवल)** की राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी / गारंटर **मैसर्स न्यू** 

ड्रेंस पार्क (मालिक श्री बृजेश प्रसाद) ∕ राज कुमारी देवी (गारंटर) को बुलाने के लिए 07.04.2021 को धारा 13(2) के

ऋणी / गारेंटर रोशि का भूगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को एतदद्वारा

सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4)

के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **01 फरवरी 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी / गारंटर और सर्वेसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती

है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन रू. 11,10,295/- और उसपर व्यय ब्याज के लिए यूनियन बैंक

अचल संपत्ति का विवरण ग्राजंड फ्लोर फ्लैट नं. 246 ए, ब्लॉक—एसके, सेक्टर 110, नोएडा—201301 माप 28.19 वर्ग मीटर बही नं. 1, जिल्द नं. 3769

पेज 131 से 150 तक क्र सं. 3573 में एंट्री के तहत उप रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021

(₹ in lakhs, except per share data)

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

	3 Month	s ended	9 Month	Year ended	
Particulars	31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Dec-2021 (Unaudited)	31-Dec-2020 (Unaudited)	31-Mar-2021 (Audited)
Total Income from operations	123544	112308	350192	351528	470335
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	18499	14576	43034	32601	45910
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	18499	14576	43034	32601	45977
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	13012	9466	31489	20959	29461
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	13094	9442	32013	21011	29400
Equity share capital	2418	2418	2418	2418	2418
Other equity					153149
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)					
(a) Basic (in ₹)	5.39	3.89	13.03	8.50	12.01
(b) Basic (in ₹)	5.39	3.89	13.03	8.50	12.01
Notes:					

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

(₹ in lakhs)

	3 Month	s ended	9 Month	Year ended	
Particulars	31-Dec-2021 31-Dec-20 (Unaudited)		-Dec-2020 31-Dec-2021 (Unaudited)		31-Mar-2021 (Audited)
Total Income from operations	122994	112180	349006	350897	469321
Profit/(loss) before tax	18144	14059	38627	31442	43187
Profit/(loss) after tax	12711	9123	28042	20418	27331
Total comprehensive income	12789	9123	28132	20418	27302

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).

For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Place: Noida

Date: February 2, 2022

Dhruv M. Sawhney **Chairman & Managing Director** 

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305 Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301 www.trivenigroup.com | CIN : L15421UP1932PLC022174

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank Where service is a way of life

शाखा — सिविल हॉस्पिटल के सामने, बहादुरगढ़, हरियाणा—124507 फोनः— 01276—238355

परिशिष्ट । 🗸 [देखें नियम 8(1)] सांकेतिक कब्जा सूचना सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत (अचल संपत्ति हेतु)

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम–3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे दी गई तालिका और यहाँ उल्लिखित तारीख को धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 16 दिनों के अंदर राशि चुकता करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं) के राशि चुकता करने में असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार(ओ)/जमानती(ओं) और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे तालिका में उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ऑ) / जमानती(ऑ) तथा सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है। संपत्ति के लिए कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर भविष्य की ब्याज, लागतों और अन्य व्ययों के लिए **पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, शाखा – सिविल हॉस्पिटल के सामने, बहादुरगढ़, हरियाणा—124507, फोनः— 01276—238355 के प्रभार के अधीन होगा।** 

	•			
खाते / कर्जदार(ओं) / जमानती(ओं) के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (धारा 13(2) के तहत सूचना में यथाउल्लिखित)	सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख
<b>कर्जदारः</b> श्री अवदेश राय पुत्र श्री शिव शंकर राय (कर्जदार) और श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री अवदेश राय (सह—कर्जदार)	नगर, बहादुरगढ़, हरियाणा—124507 स्थित अचल संपत्ति मकान नं.	<b>रु. 6,58,347,89/—</b> दिनांक 30.06.2021 को और आगे की ब्याज एवं अन्य प्रभार	07.07.2021	02.02.2022
<b>0</b> 1		0 0 0 11		

डंडियन बैंक

🔔 इलाहाबाद



**Indian Bank** 

ALLAHABAD

एसएएम शाखा, पहली मंज़िल, 17 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 (फोन 011-40230166) ईमेलः armbdelhi@indianbank.co.in

" परिशिष्ट–IV–ए " [ नियम 8(6) का परंतुक देखें ] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सुचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुन-निर्माण और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सचना तदुद्वारा सामान्य रूप से जनसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी रखी हुई/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका प्रतीकात्मक

कब्जा इंडियन बैंक, एसएएम शाखा दिल्ली (प्रतिभृत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, को दिनांक 02.03.2020 के अनुसार मेसर्स गर्ग वायर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी द्वारा जिनका पंजीकृत कार्यालय मेन सांपला बेरी रोड, रुथी धरम कांटा के विपरीत, ग्राम इस्माइला रोहतक में है, के प्रॉप्राइटर श्री यशपाल गर्ग, निवास एच.नं.3, रोड नं. 29, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026 के माध्यम से इंडियन बैंक, एसएएम शाखा दिल्ली (प्रतिभूत लेनदार) को देख राशि रु. 6,83,77,868.83/– (छह करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अड़सठ रुपये एवं तिरासी पैसे मात्र) और साथ में बकाया राशि का भुगतान न होने तक ब्याज एवं अन्य व्यय की वसूली के लिए "जैसे है जहाँ है" एवं "जैसे है जो है" व " वहाँ जो भी है आधार" पर दिनांक 09/03/2022 को बेच दिया जाएगा:-

- 1. श्री यशपाल गर्ग पुत्र श्री दयाल चंद गर्ग, निवास एच.नं.3, रोड नं. 29, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
- . श्रीमती रेवा गर्ग पत्नी श्री यशपाल गर्ग, निवास एच.नं.3, रोड नं. 29, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 –नीलामी मोड के माध्यम से बेचने के लिए अभीष्ट संपत्ति का विशिष्ट विवरण निम्नानुसार है:

अधिनियम 2002 के अधीन दिनांक 09/03/2022 को सबद 11 00 बजे श्री युणपाल गर्ग (पॉपाइटर मेमर्स गर्ग वायर मैन्यफैक्सपिंग कंपनी) निवास एक तं 3 रोह तं 29 ईस्ट पंजाबी बाग उर्द दिल्ली-1100

सरकता आधानयम 2002 के अधान (तनक 09/03/2022 की सुंबह 11.00 बजे श्रा वशपाल गंग (प्राप्राइटर मसंस गंग वाधर मन्यूएक्टचारंग कंपना) निवास एच.न.उ., राड न. 29, इस्ट पंजाबा बाग, नइ १६ल्ला—110020 के नाम में अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई—नीलामी							
संपत्ति का विस्तृत विवरण	कुल्तना इस्माइला रोड, मेन सांपल बेरी रोड ग्राम इस्माइला 11-विस्वा, तहसील सांपला में प्लांट एवं मशीनरी के साथ संपत्ति के सभी एवं अंशः 1. "रेक्ट नं. 161, किल्ला नं. 21/1 (3-12), रेक्ट नं. 172 किल्ला नं. 1/1 (2-4), 172/1/1 (1-11), क्षेत्रफलः 6-कनाल 17 मरला अर्थात 0.85625 एकड़" 2. "रेक्ट नं. 160 किल्ला नं. 16 (7-7), 160/25/1(6-0) परिमाप 13 कनाल 7 मरला अर्थात 1.66875 एकड़" इस प्रकार भूमि का कुल क्षेत्रफल है 20 कनाल 4 मरला अर्थात 2.525 एकड़ जो श्री यशपाल गर्ग (मेसर्स गर्ग वायर मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी के प्रांप्राइटर) के नाम में है।						
स्थानीय स्व-सरकारी, बिजली, संपत्ति कर, नगर निगम कर आदि के बकाये ऋणभार का विवरण, यदि कोई है, जो बैंक को ज़ात है	बैंक को ज्ञात नहीं है।						
आरक्षित मूल्य	रु. 7,09,05,000/— (सात करोड़ नौ लाख पाँच हजार रुपये मात्र)						
अमानत राशि जमा	रु.70,90,500/— (सत्तर लाख नब्बे हजार पाँच सौ रुपये मात्र)						
बोली वृद्धि राशि	रु.1,00,000/— (एक लाख रुपये मात्र)						
ई–नीलामी की तिथि और समय	09-03-2022 को सुबह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक						
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन बोली में भाग लेने हेतु हमारी ई-नीलामी सेवाप्रदाता एमएसटीसी लि. की वेबसाइट (www.mstcecommerce.com) देखें। तकनीकी सहयोग हेतु, कृपया एमएसटीसी हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 और सेवाप्रदाता हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नं. पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण की वस्तस्थिति के लिए, कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर संपर्क करें और ईएमडी							

वस्तुस्थिति के लिए, कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें। संपत्ति के विवरण एवं संपत्ति की तस्वीर तथा नीलामी के नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://ibapi.in देखें एवं इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नं. '18001025026' एवं '011-41106131' पर

punjab national ban

..the name you can BANK upon

ग्राहक का नाम

संतोष गप्ता और ममता गुप्त

प्रदीप मोंगा और नीरा मोंग

संजय अग्रवाल और सरोज अग्रवाल

संजय अग्रवाल और सरोज अग्रवाल

राम अवतार गर्ग निर्मल

अनिल कुमार और नीलम

ऊषा गुप्ता

सुनीता कपूर

सरोज भाटिया

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

नंबर

40 AE01402

41 Al00628

42 AS01447

43 AT01551

44 AN00994

45 AN01009

46 AV01726

47 AK00812

48 AC00239

49 AD02347

सर्कल ऑफिसः ईस्ट दिल्ली, भूतल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

हमारी शाखाओं में लॉकरों के किराया बकाया हेतु नोटिस कि पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नीचे तालिका में यथाउल्लिखित संबंधित लॉकर वारिसों को सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स (लॉकर्स

लॉकर वारिसों द्वारा 3 वर्षों से अधिक का किराया भुगतान नहीं किया है और उनके खिलाफ किराया का बकाया है। बैंक ने लॉकर किराये के बकाया अतिदेर के भुगतान हेतु संबंधित लॉकर उत्तराधिकारियों को तीन नोटिस जारी किए।

ोलीदाताओं को <mark>वेबसाइट https://ibapi.in एवं www.mstcecommerce.com में</mark> संपत्ति की खोज-खबर लेने की सलाह दी जाती है।

ग्राहक का नाम

तिथि : 31.01.2022, स्थान : नई दिल्ली

किराये पर दिए थे।

नंबर

UU01518

AA00009 BB00150

RR01096

XX01528

AA00007

UU01691

UU01724

DD00243

PP01221

35 NN00270

38 AS00494

36

37

AJ01865

QQ00023

दीन दयाल सारदा

अष्टिवनी सभरवाल और मोनिका सभरवाल

वीना रानी बजाज और सचिन बजाज

10

पजाब नैशनल बैक

इंदु मती रस्तोगी

ओम प्रकाश शम

राजिन्दर प्रसाद जैन

निर्मल अरोरा और मोहिन्दर लाल

किरन चौपड़ा और संगीता चौपड़ा

टी.एन.पी. नागरथ और सुशीला नागरथ

ए एच खान और परवीन खान

राज कुमारी


प्राधिकृत अधिकारी

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L74999DL1987PLC029553

Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

Tel: 0124 - 4518900 E-mail: investors@sandhar.in Website: www.sandhargroup.com



\*Consolidated (₹ in crores, except EPS) | PAT inclusive of Other Comprehensive Income

### EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021

(₹ in lakhs, except per equity share data)

	Particulars	Consolidated				Standalone			
SI.		Quarter ended		Nine months Year ended ended		Quarter ended		Nine months ended	Year ended
No.		31 December 2021	31 December 2020	31 December 2021	31 March 2021	31 December 2021	31 December 2020	31 December 2021	31 March 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	61,171.22	59,307.54	164,012.40	186,356.51	51,387.18	50,986.80	136,790.73	158,530.80
2	Net Profit for the period (before Tax and share of loss in joint ventures)	2,467.58	4,362.07	6,336.56	8,921.46	2,432.77	3,904.55	5,734.48	8,547.72
3	Net Profit for the period (before Tax and after share of loss in joint ventures)	2,158.80	4,046.35	5,299.25	7,801.53	2,432.77	3,904.55	5,734.48	8,547.72
4	Net Profit for the period (after Tax and after share of loss in joint ventures)	1,311.57	2,918.36	3,644.14	5,783.36	1,645.58	2,896.67	4,113.86	6,523.20
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	2,155.71	2,859.30	4,368.22	5,408.83	1,610.59	2,735.43	3,966.92	6,123.00
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	-	74,418.43	-	-	-	74,654.97
8	Earnings Per Share (Face value of Rs 10/- per share) (not annualised for quarter/ nine months)								
	1. Basic:	2.17	4.85	6.05	9.61	2.73	4.81	6.83	10.84
	2. Diluted:	2.17	4.85	6.05	9.61	2.73	4.81	6.83	10.84
Note:				•					

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine months ended 31 December 2021 of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine months ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com

Dated: 2 February 2022

FF00407 11 राजू पाल 50 AZ04150 वंदना गुप्ता 12 देवेन्दर कमार और चंदर प्रभा DD00255 कल्पना वालिया और अशोक कालिय AB02155 गीता प्रभाकर 13 1100654 52 DD00273 मयंक गर्ग रविन्दर चड्ढा और तिलकराज चडढा बी.एन. मोंगा और किरन मोंगा 14 AG00529 53 1100667 15 AD00282 कलभषण 54 AC02215 सरिता गुप्ता 16 AO01680 ब्रज रानी 55 DD00326 श्री पाल सिंह 17 AN01341 विनी खन्ना अंजान खन्ना और रमेश खन्ना 56 CC00183 18 AA00006 57 जंग बहादुर और राज खुराना CC00186 संत सिंह 19 AF00486 सुशांत थापर और दिक्षा खन्ना 58 DD00269 मोहित कपूर 20 AF00458 सुशांत थापर और दिक्षा खन्ना 59 EE00303 शशि भूषण शंकर 21 AA00009 60 JJ00880 मधु गुप्ता 22 AG00531 अंकुर शर्मा NN01180 अनिल कुमार और मुन्नी देवी 23 AI00711 सिद्धार्थ आनंद भीष्म कुमार गुप्त 62 MM01138 AC00225 विजेन्दर वर्मा और सीम वम DD00306 सुरेश चंद्र वाजपेर्य 63 25 AB00084 कौशिल्या देवी और कश्मीरी लाल चावला 64 WW00069 शारदा बजाज 26 AA00030 सुधीर कुमार और नुपुर कुमार 65 BB00129 मिथलेश शर्मा मनीष सूरी 27 AF00431 अतुल कुमार शर्मा 66 PP00965 AO00996 कुंदन सिंह मेहता 67 GG00559 मीता अग्रवाल राज कुमार मिगलार्न 29 AA00002 68 QQ00993 शिवानी शर्मा 30 1100786 सत्यादेवी मिश्रा धम्यंती रानी और हरि कुमार 69 AX00135 31 BB00138 चंदर प्रभा सोर्न रॉयल प्रिंटर्स एंड पब्लिशर 70 1100624 AK00834 32 शारदा अरोरा 71 HH00486 कनिका साहनी और संजय साहनी 33 BA00619 72 GG00439 किरन बत्रा रजनी गप्ता और पवन गप्ता 34 DD00028

39 HH00437 लॉकर वारिसों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त लॉकरों के किराये का भुगतान 07 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो किराया विलेख के खंड सं. 9 के अनुपालन में संबंधित लॉकर किरायेदार के हर्जे—खर्चे पर लॉकर तोड़कर खोले जायेंगे और बैंक लॉकर की समस्त अंतर्वस्तुओं या इसके किसी भाग की सार्वजनिक अथवा निजी बिक्री द्वारा अपने देयों की वसूली करेगा। बैंक के देयों को पूरा कर दिए जाने के बाद शेष कोई राशि और/या लॉकर की अंतर्वस्तु बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किरायेदार के पूर्ण जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर बैंक के अधिकार में रखे जायेंगे। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि के बैंक देयों की वसुली के लिए अपर्याप्त होने पर लॉकर किरायेदार कमी के लिए देनदार

दिनांकः 01.02.2022, स्थानः दिल्ली सीओः ईस्ट दिल्ली, पंजाब नैशनल बैंक Place: Gurugram (Haryana)

For Sandhar Technologies Limited JAYANT DAVAR Co-Chairman and Managing Director

73 DD00233 अशोक कुमार मेहत सुखबीर सिंह 74 GG00007 सोन आहजा संतोष जैन 75 GG00045 गीता गर्ग सुरेन्दर कामिनी कपर और शीतर टंडन

76 KW00345

77 0000118 शिव कुमार मित्तल और ऊषा मित्तल